



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 492 राँची, शुक्रवार,

21 जून, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

20 जून, 2019

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019

संख्या-परि०वि०-145/2007(पार्ट)-630..मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-111 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने की तिथि:-

- यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम-252 के उप नियम-252(घ), 252(छ), 252(ज) एवं 252(ञ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- (i) **नियम 252 का उप नियम 252 (घ)-** प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के लिए प्रपत्र ए.पी.टी.सी. में प्राधिकरण प्राधिकारी को आवेदन दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे प्राधिकरण एवं एतद् संबंधी अन्य स्वीकृति के लिये निम्न शुल्क का भुगतान किया जाएगा-

(क)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए फीस।	10000.00 रु०
(ख)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिए फीस।	10000.00 रु०
(ग)	नियम-252 ठ के उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए फीस।	1000.00 रु०
(घ)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु आवेदन फीस।	5000.00 रु०
(ङ.)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण (वैद्य उत्तराधिकारी के बीच) हेतु फीस।	3000.00 रु०

- (ii) **नियम 252 का उप नियम 252 (छ) -** स्वीकृत या नवीकृत प्राधिकार पत्र स्वीकृति या नवीकरण की तिथि से 03 (तीन) वर्ष के लिए वैद्य होगा।
- (iii) **नियम 252 का उप नियम 252 (ज) -** प्राधिकरण पत्र के नवीकरण हेतु इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन देना होगा। विलंबित आवेदन के लिए आवेदक को विलम्ब का कारण देना होगा और विलम्ब अवधि के लिए दंड के रूप में निम्न शुल्क देय होगा-

क्र०सं०	अवधि	विलम्ब फीस
(क)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के पूर्व	00/-
(ख)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर	1000/-
(ग)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति के पश्चात	1000/- एवं प्रत्येक माह व अंश के लिए 500/-प्रतिमाह

- (iv) नियम 252 का उप नियम 252 (ज)- प्राधिकृत जाँच केन्द्र के द्वारा की गयी जाँच एवं निर्गत प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए निम्न शुल्क जाँच केन्द्र द्वारा ली जाएगी-

क्र०सं०	वाहनों का प्रकार	अवधारित फीस	अवधारित फीस में से सरकार को दी जानेवाली राशि
1.	दुपहिया वाहन	50.00 रु०	20.00 रु०
2.	तीन पहिया वाहन	80.00 रु०	30.00 रु०
3.	चार पहिया वाहन	120.00 रु०	40.00 रु०
4.	मध्यम वाहन	200.00 रु०	80.00 रु०
5.	भारी वाहन	300.00 रु०	100.00 रु०

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सचिव
परिवहन विभाग ।
